

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39 नई दिल्ली शनिवार, फरवरी 28, 1970/फाल्गुन 9, 1991

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 1970/PHALGUNA 9, 1991

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 28th February 1970

G.S.R. 317/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Sugar (Price Determination) Order, 1970, namely:—

1. This Order may be called the Sugar (Price Determination) Amendment Order, 1970.

2. In the Sugar (Price Determination) Order, 1970, in Schedule II, under the heading "North Bihar", for the entry against Serial Number 8, the following entry shall be substituted, namely:—

"8. The Gobind Sugar Mills Ltd., Lessees of Shree Hanuman Sugar & Industries Ltd., P.O. Motihari, Distt. Champaran."

[No. 2-1/70-S. Py.]

R. S. TALWAR, Jt. Secy

(155)

